

## Bundi News : कृषि विभाग की टीम का नकली धान बीज के कारखाने पर छापा, कई उपकरण जप्त



कृषि आयुक्त ने कई कट्टे नकली बीज जप्त किए

**अर्जुन अरविंद, बूंदी :** देश-विदेश में बूंदी के चावल की अपनी अलग पहचान है। लेकिन, कृषि आयुक्त की जांच में नकली धान के बीज से खेती करने की बात सामने आने के बाद अब चावल की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। एक शिकायत के बाद कृषि आयुक्त ने कई कट्टे नकली बीज और उपकरण जप्त किए। नकली बीज के कारोबार का भी पता चला है। मामला बुधवार देर रात का है। कृषि आयुक्त के मुताबिक, मामले की जांच कर रिपोर्ट कलेक्टर को दी जाएगी। फिर आगे की कार्रवाई हो सकेगी।

### जांच के लिए 4 नमूने प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं

कृषि आयुक्त ने नैनवा रोड राता बरडा बाबा ट्रेडर्स (बीबी) सहित एक दुकान पर कार्रवाई की। टीम ने संदिग्ध धान बीज किस्म 1509, 2511 और 1718 के 10 किलोग्राम के 631 बैग जप्त किए हैं। इसके बाद एक दुकान पर भी कार्रवाई की गई, जहां सभी नकली बीज कंपनी के नाम से बेचे जा रहे थे। कृषि अधिकारियों का कहना था कि बीज के उत्पादन-विपणन हेतु विभाग में पंजीकरण एवं विक्रय परमीशन जारी नहीं करवाई, जिससे बीज को अवैध बताया गया है। भंडारित धान बीज के कट्टों पर आवश्यक समस्त सूचना अंकित नहीं थी। बीज को संदिग्ध और नकली मानते हुए जांच के लिए 4 नमूने प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं।

### कार्यवाही के दौरान टीम में शामिल रहे ये अधिकारी

कार्रवाई के दौरान कृषि अधिकारी (सामान्य) कार्यालय उप निर्देशक बूंदी, प्रकाश सिंह यादव, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कोटा डॉ राम अवतार शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार में पदस्थापित अधिकारी हुकमाराम शर्मा, सहायक निदेशक कृषि उमाशंकर शर्मा, कृषि अधिकारी डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा, शिवराज खटीक मौजूद थे।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/rajasthan/kota/agriculture-department-team-seized-illegal-seeds-in-bundi-rajasthan/articleshow/92601835.cms>